



July 28, 2020

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1 Block G
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400051, India

The BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai – 400001, India

Ref: Bharti Airtel Limited (BHARTIARTL/ 532454)

Sub: Submission of Newspaper advertisements w.r.t. 25th Annual General Meeting and e-voting information

Dear Sir/ Madam,

Further to our letter dated July 27, 2020, we are enclosing herewith copies of newspaper advertisement published in the newspapers viz. Mint (in English) and Hindustan (in Hindi), inter-alia confirming completion of dispatch of Notice of 25th Annual General Meeting including e-voting information, Integrated Report and Annual Financial Statements 2019-20 and Record date for the payment of dividend.

The above information is also available on the website of the Company at www.airtel.com.

Kindly take the same on record.

Thanking you
Sincerely Yours,

For Bharti Airtel Limited


Rohit Krishan Puri

Dy. Company Secretary & Compliance Officer





Bharti Airtel Limited
(a Bharti Enterprise)

Regd. & Corporate Office: Bharti Crescent, 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, Phase II, New Delhi - 110 070
T.: +91-11-4666 6100, F.: +91-11-4166 6137, Email id: compliance.officer@bharti.in, Website: www.airtel.in
CIN: L74899DL1995PLC070609

bharti

**BHARTI AIRTEL LIMITED**

CIN: L74899DL1995PLC070609

Registered & Corporate Office: Bharti Crescent,
1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, Phase II, New Delhi 110070
Tel.: +91-11-4666 6100; Fax.: +91-11-4166 6137
Email id: compliance.officer@bharti.in, **Website:** www.airtel.com

**NOTICE OF 25th ANNUAL GENERAL MEETING OF
BHARTI AIRTEL LIMITED AND E-VOTING INFORMATION**

Notice is hereby given that:

- The 25th Annual General Meeting ('AGM') of Bharti Airtel Limited ('Company') will be held on Tuesday, August 18, 2020 at 03:30 P.M. (IST) through Video Conferencing ('VC') / Other Audio-Visual Means ('OAVM') to transact the businesses as set forth in the Notice of 25th AGM ('the Notice'). The venue of AGM shall be deemed to be the Registered Office of the Company i.e. Bharti Crescent, 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, Phase II, New Delhi 110070. The Company has appointed KFin Technologies Private Limited ('KFIN'), RTA to provide VC / OAVM facility along with the e-voting facility for the 25th AGM.
- In accordance with the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI), the Notice and Integrated Report & Annual Financial Statements for the financial year 2019-20 ('Integrated Annual Report') have been sent in electronic mode to members whose email ids are registered with the company / depositories. The electronic dispatch of the Notice and Integrated Annual Report to members has been completed on Monday, July 27, 2020. The Notice and Integrated Annual Report is also available on the Company's website www.airtel.com and on the website of KFIN at einward.ris@kfinetech.com.
- Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide e-voting facility to the members to cast their vote electronically on all resolutions as set forth in the Notice. Members may cast their votes electronically through e-voting / remote e-voting ('e-voting'). The Ordinary and Special Business, as set out in the Notice will be transacted through voting by electronic means only. The remote e-voting period will commence at 9:00 A.M. Friday, August 14, 2020 and end at 5:00 P.M. on Monday, August 17, 2020. The remote e-voting module shall be disabled for voting at 5:00 P.M. on Monday, August 17, 2020. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member cannot modify it subsequently.
- The cut-off date for the purpose of ascertaining the eligibility of Members to avail e-voting/remote e-voting facility will be Tuesday, August 11, 2020. The voting rights of Members shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date. Members are eligible to cast vote only if they are holding shares as on the cut-off date.
- Members who have acquired shares after the sending of the Integrated Annual Report through electronic means and before the cut-off date may obtain user id and password by sending a request to KFIN at einward.ris@kfinetech.com. However if a person is already registered with KFIN for remote e-voting then such members may use existing user id and password, and cast vote.
- The members who will be present in the AGM through VC / OAVM and have not already cast their vote(s) through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.
- Members holding shares in physical form who have not registered their e-mail addresses with the Company are requested to register the same by writing to KFIN at einward.ris@kfinetech.com along with the scanned copy of signed request letter mentioning their name and address, scanned copy of the share certificate (front and back), self-attested scanned copy of PAN card and self-attested scanned copy of any document (viz. Aadhar card, Driving License, Passport) in support of their address. Members holding shares in dematerialized form are requested to register/ update their e-mail addresses with their relevant DPs.
- The Company has fixed Friday, August 07, 2020 as the "Record Date" for determining the entitlement of members to dividend, recommended by the Board of Directors for the financial year ended March 31, 2020. The dividend, subject to the approval of Members at the AGM, will be paid within 30 days from the date of approval to those Members / beneficial owners whose names appear in the Register of Members / depository records as at close of business hours on Record Date.
- As per the Income Tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2020, dividend paid or distributed by the Company on or after April 01, 2020 shall be taxable in the hands of the Members. The Company shall therefore be required to deduct tax at source (TDS) at the time of making payment of the said dividend.
- In case of any query pertaining to e-voting, members may visit Help & FAQs section available at KFin website (<https://evoting.karvy.com/public/Faq.aspx>). In case of any other queries / grievances connected to remote e-voting or shares, members may contact Mr. Raj Kumar Kale, an official of KFIN at Selenium Tower B, Plot Nos. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500032, telephone number: 040-67162222 or the toll free number 1800-345-4001 or at email: evoting@kfinetech.com.

For Bharti Airtel Limited
Sd/-
Pankaj Tewari
Company Secretary

Place : New Delhi
Date : July 27, 2020

**STL GLOBAL LIMITED**

CIN: L51909DL1997PLC088667

Regd. Office: Unit No. 111, Block No. 1,

First Floor, Tribhuvan Complex, Ishwar Nagar, New Delhi-110065
Tel: 011-26935829, e-mail: investors@stl-global.com, Website: www.stl-global.com

**EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE
QUARTER & FINANCIAL YEAR ENDED 31st MARCH, 2020**

Particulars	(Rs. in Lakhs)		
	Quarter Ended (31.03.2020)	Year Ended (31.03.2020)	Corresponding Quarter ended in the previous year (31.03.2019)
	Audited	Audited	Audited
Total income from operations (net)	2,144.98	9,240.63	7,017.36
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(239.45)	43.52	4,255.92
Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	2,204.78	2,487.75	4,255.92
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,204.78	2,487.75	4,255.92
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	2,204.78	2,487.75	4,255.92
Equity Share Capital (Face Value: Rs. 10/- each)	2,722.18	2,722.18	2,722.18
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	(3,888.85)	-
Earnings Per Share (for continuing and discontinued operations)			
Basic :	08.17	09.22	15.77
Diluted :	08.17	09.22	15.77

Note:

- The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the quarter & year ended 31st March, 2020 filed with the Stock Exchanges i.e. NSE & BSE under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time. The full formats of the Audited Financial Results for the quarter & year ended 31st March, 2020 are available on the company's website at www.stl-global.com and on the Stock Exchanges websites at BSE at www.bseindia.com and at NSE at www.nseindia.com respectively.
- The impact on net profit/loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies, if any, shall be disclosed by means of footnote.
- There were exceptional and extraordinary items during the quarter & year ended 31st March, 2020.

For and on behalf of the Board of Directors of
STL Global Limited
Sd/-
Sh. Sanjiv Kumar Aggarwal
(Whole Time Director)
(DIN: 00227251)

Place : Faridabad
Date : 27th July, 2020

**WEST BENGAL STATE ELECTRICITY
DISTRIBUTION COMPANY LIMITED**

(A Govt. of West Bengal Enterprise)

Regd. Office : Vidhyut Bhavan, Block-DJ, Sector-II, Bidhannagar, Kolkata-700 091
CIN : U40109WB2007SGC113473, cecorpnm@gmail.com, www.wbseidcl.in

NIT No.: RM/BDN/CIVIL/e-TENDER/2020-21/04/51 Date: 17.07.2020

E-tender in two parts is invited by the **Regional Manager, Burdwan Region, WBSEDCL** from bonafide, experienced and resourceful contractors of WBSEDCL/DPL/PGCIL/NTPC and other Central Govt./State Govt./Semi Govt./Govt. Undertaking for *Construction of new control room building, switchyard construction, retain cum boundary wall (201M), land development, approach road & associated civil works for proposed 33/11 kV sub-station at Dakshinkhanda, P.S.: Andul under Durgapur Division: Estimated Cost: Rs. 1,47,53,010/- (including 1% labour welfare cess); Earnest Money: Rs. 2,95,100/-; Completion Time: 10 (ten) months; Pre-Bid meeting: 30.07.2020 (15:00 hrs.); Bid submission end date (online): 07.08.2020 (16:00 hrs.). For further details, please visit www.wbtenders.gov.in and www.wbseidcl.in. (CA-727243/2020)*

**INTRASOFT TECHNOLOGIES LIMITED**

CIN: L24133MH1996PLC197857

Regd. Office: 502A, Prathamesh, Raghuvanshi Mills Compound,
Senapati Bapat Marg, Lower Parel (W), Mumbai- 400013
Tel: 91-22-2491-2123, Fax: 91-22-2490-3123
Website: www.itindia.com, E-Mail: intrasoft@itindia.com

**Notice to the Shareholders for Information about E-mail /
Bank Account and Tax exemption forms /
Certificates registrations for 25th Annual General Meeting.**

In compliance with the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the 25th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company is going to be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) Mode in the second half of September, 2020, to transact the businesses as set out in the notice of AGM which is being circulated for convening the meeting soon at a later date as per provisions of the Companies Act, 2013.

In view of the continuing Covid-19 pandemic, MCA has vide its Circular No. 20 dated May 5, 2020 read with Circular No. 14 dated April 8, 2020 and Circular No. 17 dated April 13, 2020 (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India (SEBI) vide its circular dated May 12, 2020, permitted the holding of AGM through VC or OAVM without the physical presence of Members at a common venue.

The Notice of AGM along with the Annual Report for the financial year 2019-20 is being sent only by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company / Depositories / RTA in accordance with the aforesaid MCA and SEBI Circulars.

Members may note that the Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2019-20 will also be available on the Company's website www.itindia.com and websites of the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Ltd and BSE Limited. Members can attend and participate in the AGM through VC / OAVM facility only. The instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purposes of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Pursuant to Finance Act, 2020, the dividend income from Indian companies would be liable to tax in the hands of the shareholders. Furthermore, the Indian companies would be liable to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. The Shareholders are requested to refer Finance Act, 2020 including Amendments thereof.

The Resident Shareholders having Permanent Account Number (PAN) and who are not liable to pay income tax are requested to submit a yearly declaration in Form 15G/15H to avail the benefit of non-deduction of Tax at source, or applicability of lower tax rate or NIL rate of tax for the purpose of Dividend. In case PAN is not registered with Link Intime India Private Limited, the Shareholders are subject to the higher deduction of tax at the rate 20% .The Shareholders are requested to submit above declarations/ register their PAN with the link as provided by our RTA.

Non-Residential Shareholders (FPIs- Individual / Company / Trust / BOI / AOP) can avail beneficial rates under the tax treaty between India and their Country of residence, subject to providing necessary documents, i.e. No Permanent Establishment and Beneficial Ownership Declaration and / or Tax Registration Certificates (TRC) or declaration in Form 10F to avail beneficial tax rates, if any, of their tax residence Country. The aforesaid declarations and documents need to be submitted by the shareholders by (Date) with due self attestation.

Alternative Investment Funds (AIFs) and Mutual Funds are required to submit their SEBI Registration Certificates -

Registration of email ID, Bank Account details AND Tax Exemption Forms or Certificates:

In case the shareholder's email ID is already registered with the Company/its Registrar & Share Transfer Agent "RTA"/Depositories, log in details for e-voting are being sent on the registered email address.

In case the shareholder has not registered his/her email address with the Company/ its RTA/Depositories and or not updated the Bank Account mandate for receipt of dividend and also want to upload tax exemption/tax status details, the following instructions to be followed:

- Kindly log in to the website of our RTA, Link Intime India Private Ltd., www.linkintime.co.in under Investor Services > Email/Bank detail Registration- fill in the details, upload the required documents and submit.
- In the case of Shares held in Demat mode: The shareholder may please contact the Depository Participant ("DP") and register the email address and bank account details in the demat account as per the process followed and advised by the DP.

For IntraSoft Technologies Limited
Pranvesh Tripathi
Company Secretary

Place : Mumbai
Date : 27-07-2020

**ESCORTS****Extract of Standalone And Consolidated Unaudited Financial Results
For the quarter ended June 30, 2020**

Sl. No.	Particulars	Rs. in Crores							
		Standalone Results				Consolidated Results			
		3 Months Ended	3 Months Ended	3 Months Ended	Year Ended	3 Months Ended	3 Months Ended	3 Months Ended	Year Ended
		June 30, 2020	March 31, 2020	June 30, 2019	March 31, 2020	June 30, 2020	March 31, 2020	June 30, 2019	March 31, 2020
		Unaudited	Refer Note 2	Unaudited	Audited	Unaudited	Refer Note 2	Unaudited	Audited
1.	Total revenue from operations	1,061.63	1,380.68	1,422.97	5,760.95	1,089.26	1,385.65	1,440.45	5,810.09
2.	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	121.09	191.60	129.14	648.06	121.63	179.15	129.36	634.47
3.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	121.09	191.60	129.14	638.84	121.63	179.15	129.36	625.25
4.	Net Profit for the Period	92.16	140.40	87.49	485.54	92.58	127.73	87.66	471.72
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	90.08	137.19	87.41	479.84	90.56	124.32	87.15	465.48
6.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) after non-controlling interest]	90.08	137.19	87.41	479.84	90.44	124.50	87.23	466.02
7.	Equity Share Capital	122.58	122.58	122.58	122.58	122.58	122.58	122.58	122.58
8.	Other Equity	-	-	-	3,357.50	-	-	-	2,994.82
9.	Earnings Per Share of Rs. 10 each:								
	(1) Basic (Rs.)	7.71	11.75	7.32	40.63	10.78	14.91	10.23	55.04
	(2) Diluted (Rs.)	7.71	11.75	7.32	40.63	10.78	14.91	10.23	55.04

Notes :

- The above Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2020 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their respective meetings held on July 27, 2020.
- The figures for the quarter ended March 31, 2020 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and published year to date figures up to the third quarter of year ended March 31, 2020.
- Exceptional items (loss) of Rs 9.22 crores during the year ended March 31, 2020 represents payment towards full and final settlement of product liability matter.
- In terms of Share Subscription Agreement and Shareholders Agreement dated March 20, 2020 and requisite approvals the Company has allotted 1,22,57,688 equity shares of the face value of Rs 10/- at an issue price of Rs 850/- (which includes a premium of Rs 840/-) for each Share to Kubota Corporation, Japan on July 16, 2020. The Board in its meeting held on July 15, 2020 has also approved selective reduction of its share capital by cancelling and extinguishing 1,22,57,688 Equity Shares, held by the Escorts Benefit and Welfare Trust and Company is in the process of taking requisite approvals for completing the same.
- The outbreak of Coronavirus (COVID-19) pandemic globally and in India is causing significant disturbance and slowdown of economic activity. The Company is in the business of manufacturing agri-machinery, construction equipment and railway equipment which are related with activities that are fundamental to the Indian economy. The Company has evaluated impact of this pandemic on its business operations and based on its review and current indicators of future economic conditions, there is no significant impact on its financial results.
- The above is an extract of the detailed format of the Consolidated and Standalone financial results for the quarter ended 30 June 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Full format of the Consolidated and Standalone financial results for the quarter ended 30 June 2020 are available on the Stock Exchanges websites www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website www.escortsgroup.com.

For ESCORTS LIMITED

(NIKHIL NANDA)
(CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR)

Escorts Limited

Phone: 0129-2250222, Fax: 0129-2250060

E-mail: corpsect@ndb.vsnl.net.in, Website: www.escortsgroup.com

Registered Office : 15/5, Mathura Road, Faridabad – 121 003, Haryana

CIN - L74899HR1944PLC039088

**New Okhla Industrial Development Authority**

Administrative Building, Sector-6, Noida-201301 (U.P.)

Website: www.noidaauthorityonline.com**E-TENDER NOTICE**

E-Tender are invited from firms/contractors registered with UPLC Lucknow for the following jobs against which bids can be uploaded and same shall be opened/downloaded as per schedule mentioned. The details and conditions of all tenders are available on NOIDA Authority's official website: www.noidaauthorityonline.com & <http://etender.up.nic.in>. Please ensure to see these websites for any changes/amendments & corrigendum etc.

- 1. 12/GM(R)/SM(WC-2)/2020-21, Name of Work:-** Strengthening of Road (P/L DBM and DBC work in Internal road Sector-37), Noida, **Cost - Rs. 307.36 Lacs**
- 2. 01/GM(R)/SM(WC-2)/2020-21, Name of Work:-** Annual Repair of Roads (Regular Maintenance & Minor work for the year of 2019-20 in Work Circle-2 Area), Noida, **Cost - Rs. 113.54 Lacs**
- 3. 23/GM(R)/SM(WC-3)/2019-20, Name of Work:-** D/o Village Barola (C/o C.C. Road and Drain Jaal fixing in Rajput Colony, Gauri Shankar Mandir and Kalyan Kunj etc in Village Barola), Noida, **Cost - Rs. 382.91 Lacs**
- 4. 12/GM(K)/SM(WC-6)/2019-20, Name of Work:-** D/o Village Sarfabad (C/o C.C. Road, Drain, Culvert and P/F Jaal in Back side of Yadu Public School's Gales from Sector-120 to Tantoo Village Side), Noida, **Cost - Rs. 213.19 Lacs**
- 5. 07/GM(K)/SM(WC-6)/2020-21, Name of Work:-** D/o Sector-112 (C/o Road, Drain, and Culvert in Newly Planned 5% Abadi Plots in Sector-112) Noida, **Cost - Rs. 76.44 Lacs**
- 6. 08/GM(K)/SM(WC-6)/2020-21, Name of Work:-** D/o Sector-72 (P/L Interlocking paver blocks on road paties in Sector-72), Noida, **Cost - Rs. 361.36 Lacs**

Which can be uploaded by date 04.08.2020 upto 5.00 PM. Pre-qualification shall be opened/downloaded on date 05.08.2020 at 11.00 AM.

General Manager, NOIDA

CLEAN, GREEN, SAFE & SECURE NOIDA**यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण**

प्रथम तल, कॉमर्सियल कॉम्प्लेक्स, ओमेगा-1 (बी-2),

ग्रेटर नोएडा सिटी, जनपद-गौतमबुद्ध नगर फोन नं. 0120-2395152,

वेबसाइट www.yamunaexpresswayauthority.comFUTURE IS HERE
YEDA: WITH HUMAN FACE

पत्रांक: वाई ई ए. / नियोजन / 610 / 2020

दिनांक: 27.07.2020

सार्वजनिक सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि :-

- (क) उत्तर प्रदेश व्हाइसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति 2018 के प्रावधानों के अनुरूप यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की महायोजना फेज-01 एवं यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन विनियमावली के प्रस्तर संख्या-24.4 में संशोधन किया जाता है।
(ख) निरीक्षण के लिए उसकी एक प्रति यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कार्यालय, प्रथम तल, कॉमर्सियल कॉम्प्लेक्स, सैक्टर-बी 2, ओमेगा, ग्रेटर नोएडा, जनपद-गौतम बुद्ध नगर में सभी कार्यालय दिवसों में एतद्वारा पैरा 3 में से उल्लिखित अवधि में उपलब्ध रहेगी।
- एतद्वारा इस योजना के प्रारूप के सम्बन्ध में आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं।
- आपत्तियाँ और सुझाव मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को लिखित रूप में समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिवसों तक भेजे जा सकते हैं।
- आपत्तियाँ और सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम, पता एवं दूरभाष संख्या देना अनिवार्य है।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Business of LifeDaily articles on the workplace,
and how it is evolving.**mint or nothing**

THE MOST AWESOME BUSINESS DAILY THERE IS.

To get your MINT copy, give a missed call on **7039035039** or visit
www.mintreaders.com or write to us at subscription@livemint.com